



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—टप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

No. 77]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2005/फाल्गुन 5, 1926

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2005/PHALGUNA 5, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2005

सं. 1/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 93(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उक्त धाराओं में से किसी के अधीन जारी की गई और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) के प्रारंभ की तारीख को तत्समय प्रवृत्त भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सभी अधिसूचनाओं में निम्नलिखित या, और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचनाओं में से प्रत्येक में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के, ऐसे किसी माल या माल के वर्ग से संबंधित, जहां भी वे उक्त अधिसूचना में आए हों, अध्याय या शीर्ष सं० या उपशीर्ष सं० के प्रति निर्देशों के स्थान पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) द्वारा यथासंशोधित उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के प्रति तत्स्थानी निर्देश रखे जाएंगे।

यह अधिसूचना 28 फरवरी, 2005 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 4/3/2004-सीएक्स. 1 (भाग 5)]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण : इस अधिसूचना का आशय यह है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण के लिए संख्यांकन स्कीम में अंगीकृत तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाए। इन संशोधनों से विद्यमान अधिसूचनाओं में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं होंगे। अतः व्यक्ति अधिसूचना की विशिष्टियों को उपदर्शित नहीं किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2005

No. 1/2005-Central Excise

G.S.R. 93(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following or further amendments in all the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) issued under any of the said sections and which are for the time being in force on the date of commencement of the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005), namely:-

In each of the said notifications, for the references to the Chapter or heading No. or sub-heading No. of the First Schedule or the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), as the case may be, relating to any goods or class of goods, wherever occurring in the said notification, the corresponding references of the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule or the Second Schedule to the said Central Excise Tariff Act, as amended by the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005) shall be substituted.

This notification shall come into force on the 28th day of February, 2005.

[F. No. 4/3/2004-CX. 1 (pt. V)]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note: This notification intends to take care of the technical changes adopted in the numbering scheme for Central Excise classification through the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005). These amendments do not involve any substantive changes in the existing notifications. Hence, the particulars of the individual notification are not indicated.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2005

सं. 2/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 94(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 की उपधारा (3) तथा वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की धारा 169 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उक्त धाराओं में से किसी के अधीन जारी की गई और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) के प्रारंभ की तारीख को तत्समय प्रवृत्त भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सभी अधिसूचनाओं में निम्नलिखित या, और संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचनाओं में से प्रत्येक में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के, ऐसे किसी माल या माल के वर्ग से संबंधित, जहां भी वे उक्त अधिसूचना में आए हों, अध्याय या शीर्ष सं० या उपशीर्ष सं० के प्रति निर्देशों के स्थान पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) द्वारा यथासंशोधित उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के प्रति तत्स्थानी निर्देश रखे जाएंगे।

यह अधिसूचना 28 फरवरी, 2005 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 4/3/2004-सीएक्स.1 (भाग 5)]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण : इस अधिसूचना का आशय यह है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण के लिए संख्यांकन स्कीम में अंगीकृत तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाए। इन संशोधनों से विद्यमान अधिसूचनाओं में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं होंगे। अतः व्यक्ति अधिसूचना की विशिष्टियों को उपदर्शित नहीं किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2005

No. 2/2005-Central Excise

G.S.R. 94(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001) and section 169 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following or further amendments in all the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) issued under any of the said sections and which are for the time being in force on the date of commencement of the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005), namely:-

In each of the said notifications, for the references to the Chapter or heading No. or sub-heading No. of the First Schedule or the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), as the case may be, relating to any goods or class of goods, wherever occurring in the said notification, the corresponding references of the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule or the Second Schedule to the said Central Excise Tariff Act, as amended by the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005) shall be substituted.

This notification shall come into force on the 28th day of February, 2005.

[F. No. 4/3/2004-CX. 1 (pt. V)]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note : This notification intends to take care of the technical changes adopted in the numbering scheme for Central Excise classification through the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005). These amendments do not involve any substantive changes in the existing notifications. Hence, the particulars of the individual notification are not indicated.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2005

सं. 3/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 95(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले उत्पाद शुल्क्य माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची (जिसे इसमें इसके पश्चात् पहली अनुसूची कहा गया है) के अधीन उस पर उतने उत्पाद-शुल्क से जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0402 91 10 या 0402 99 20	सांद्रित (संघनित) दूध, चाहे मधुरित हैं या नहीं (जो यूनिट आधारों में रखा गया है और सामान्यतः विक्रय के लिए आशयित से भिन्न)	कुछ नहीं
2.	13.	सभी माल, जिनके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है।	कुछ नहीं
3.	16	सभी माल (जो यूनिट आधारों में रखे गए और किसी ब्रांड नाम के हैं, से भिन्न)	कुछ नहीं
4.	1701	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) चीनी, जिनके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है। (ख) चीनी, (खांडसारी चीनी से भिन्न),- (i) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विक्रय के लिए अपेक्षित	कुछ नहीं 17रु. प्रति क्विंटल

		(ii) अन्य	34रु. प्रति क्विंटल
5.	1901 90 90	सभी माल, जिन्हें यूनिट आधानों में नहीं रखा गया है (खाद्य निर्मितियों से भिन्न जिनमें माल्ट या माल्ट निष्कर्षण या किसी अनुपात में कोको चूर्ण है)	कुछ नहीं
6.	1902	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) सेवइयां (वर्मिसेली) (ख) सभी माल, जो यूनिट आधानों में रखे गए हैं से भिन्न	कुछ नहीं
7.	1904	सभी माल जो यूनिट आधानों में नहीं रखे गए हैं ।	कुछ नहीं
8.	1905	बिस्कुट, जिनके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया में विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है ।	कुछ नहीं
9.	20	सभी माल (जो यूनिट आधानों में रखे गए हैं और ब्रांड नाम के हैं से भिन्न हैं)	कुछ नहीं
10.	2103 या 2104	सभी माल, (यूनिट आधानों और ब्रांड नाम से भिन्न रखी जाती है)	कुछ नहीं
11.	2106 10 00 2106 90 70 2106 90 80 2106 90 91 या 2106 90 99	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) प्रसाद या प्रसादम् (ख) सभी माल जिनका कोई ब्रांड नाम नहीं है	कुछ नहीं
12.	2106 90 40 या 2106 90 60	सभी माल, जिनका कोई ब्रांड नाम नहीं है (नीबू जल या वातित जल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए आशयित अन्य सुपेयों के लिए विनिर्मितयां का अपवर्जन)	कुछ नहीं
13.	2201 10 10, 2201 90 90, 2202 10 90, 2202 90 30 या 2202 90 90	सभी माल, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है	कुछ नहीं
14.	2207 20 00	सभी स्पिरिट (किसी भी शक्ति के विकृतिकृत एथिल एल्कोहल से भिन्न)	कुछ नहीं
15.	2401	अविनिर्मित तम्बाकू या तम्बाकू उच्छिष्ट जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है	कुछ नहीं
16.	2403 91 00 या 2403 99 90	सभी माल, जिनका कोई ब्रांड नाम नहीं है (पान मसाला जिनमें तम्बाकू है, से भिन्न)	कुछ नहीं
17.	2515 12 20 या 2515 12 90	संगमरमर सिल्ली या टाइल (संगमरमर सिल्ली या टाइलों से भिन्न, जिनके विनिर्माण की प्रक्रिया में या उसके संबंध में साधारणतया विद्युत की बिना सहायता ली जाती है और जहां दस अश्व शक्ति से अधिक इलैक्ट्रोमोटिव शक्ति प्रयोग की जाती है)	कुछ नहीं

18.	2804 10 00	हाइड्रोजन, उत्पादन कारखाने के भीतर प्रयुक्त	कुछ नहीं
19.	2804 30 00	नाइट्रोजन, - (i) भारी जल के विनिर्माण के उपयोग के लिए ; (ii) द्रव रूप में, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रसंस्करण और भंडारण के उपयोग के लिए ; या (iii) उत्पादन कारखाने के भीतर प्रयुक्त	कुछ नहीं
20.	2804 40 90	ऑक्सीजन, भारी जल के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्रयुक्त	कुछ नहीं
21.	2805 19 00	भारी जल संयंत्र में के उपयोग के लिए पोटेशियम धातु	कुछ नहीं
22.	2811 23 00 या 2811 29 50	सल्फरडाइऑक्साइड और सल्फरट्राइऑक्साइड, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के विनिर्माण में उत्पादन के लिए कारखाने के भीतर प्रयुक्त हुए हैं,	कुछ नहीं
23.	2814	अमोनिया (अनाद्र या जलीय घोल में), भारी जल के विनिर्माण में उपयोग के लिए	कुछ नहीं
24.	28	नाभिकीय ईंधन	कुछ नहीं
25.	2847 00 00	औषधीय श्रेणी का हाइड्रोजन परॉक्साइड	कुछ नहीं
26.	2851 00 20	आसवित या चालकता जल या ऐसी ही शुद्धता का जल उत्पादन कारखाने के भीतर प्रयुक्त	कुछ नहीं
27.	2851 00 20	द्रव वायु (चाहे कोई प्रभज हटाया गया है या नहीं), उत्पादन कारखाने के भीतर प्रयुक्त	कुछ नहीं
28.	30	औषध इसमें (आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैवरसायन पद्धति में प्रयुक्त की जाने वाली औषध सम्मिलित हैं), जो, यथास्थिति, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणित पुस्तकों में या भारत की होम्योपैथिक फार्माकोपिया या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में वर्णित सूत्रों के अनुसरण में अनन्य रूप से विनिर्मित की जाती है और ऐसी पुस्तकों या फार्माकोपिया में यथाविनिर्दिष्ट नामों के अधीन विक्रय की जाती हैं)	कुछ नहीं
29.	30	औषधि (जिसके अन्तर्गत पशु औषधियां भी हैं) जो जैवरसायनिक पद्धति में उपयोग की जाती है और जिनका कोई ब्रांड नाम नहीं है ।	कुछ नहीं
30.	30	रासायनिक गर्भ निरोधक	कुछ नहीं
31.	30	मुख पुनर्जलयोजन लवण	कुछ नहीं

32.	3307 90	कुमकुम (स्टिकर कुमकुम सहित) काजल, सिंदूर, अँल्टा या महावर	कुछ नहीं
33.	3401	साबुन, जिसके विनिर्माण या उसके संबंध में किसी प्रक्रिया में विद्युत या भाप की सहायता नहीं ली जाती है।	कुछ नहीं
34.	3401 19 42	किसी ऐसे कारखाने द्वारा उत्पादित लांड्री साबुन, जो ऐसे साबुन के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग या उक्त आयोग द्वारा अनुमोदित किसी संगठन के स्वामित्व में है	कुछ नहीं
35.	3402 90 20	सल्फोनेटिड एरंड तेल, मत्स्य तेल या स्पर्म तेल	कुछ नहीं
36.	3805	तारपीन का तेल, जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है	कुछ नहीं
37.	3806	रोजिन, जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है।	कुछ नहीं
38.	4005	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) प्लेटें, चादरें या पट्टियाँ, चाहे वे किसी वस्त्र सामग्री से संयोजित हो या नहीं, जिसके विनिर्माण के संबंध में उपयोग किए गए निवेश पर संदत्त शुल्क का मूल्यवर्धित कर के मुजरा का उपयोग नहीं किया गया है ; या (ख) पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए उत्पादन कारखाने के भीतर प्रयुक्त	कुछ नहीं
39.	4008 11 10	माइक्रो-सेलुलर रबड़ की न कि लेटेक्स फोम स्पंज की प्लेटें, चादरें या पट्टी जिनका उपयोग जूतादि के लिए तल्लों, एडियों या तल्लों और एडियों के संयोजन में विनिर्माण के लिए प्रयुक्त	कुछ नहीं
40.	4401, 4402, 4403 या 4404	सभी माल	कुछ नहीं
41.	4408	वेनियर चादरें और प्लाईवुड के लिए चादरें (चाहे वे तराशी हैं या नहीं और लम्बाई में चीरा गया, तराशा गया या छाल रहित अन्य काष्ठ, चाहे समतलित, रेजमार्जित या अंगुलिबंधित है या नहीं जिसकी मोटाई 6 मि.मी. से अधिक नहीं है: (i) जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है ; या (ii) शीर्ष 4419, 4420 या 4421 के अधीन आने वाले माल के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने के भीतर प्रयुक्त	कुछ नहीं
42.	4409	काष्ठ (जिसके अन्तर्गत सजावटी काष्ठ फर्श के लिए असमंजित पट्टियाँ और चित्रवल्लरिया हैं) जिनका कोई किनारा या फलक अनवरित रूप से आकारित, जिह्वित, खांचित, रिबेटित, निकोणित,	कुछ नहीं

		वी-संधित, मनकित, संचित, गोलाकार या इसी प्रकार का है) चाहे, समतलित या रेतमार्जित या अंगुलिबंधित है या नहीं (i) जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है (ii) शीर्ष 4419, 4420 या 4421 के अधीन आने वाले माल के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने के भीतर प्रयुक्त	
43.	4707	पुनःप्राप्त (अपशिष्ट या स्क्रेप) कागज या पेपर बोर्ड, शैक्षणिक पुस्तकों के मुद्रण के अनुक्रम में लेखन या मुद्रण से उद्भूत	कुछ नहीं
44.	4802	शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए लेखन या मुद्रण कागज	कुछ नहीं
45.	4802	पेपर या पेपर बोर्ड जिसके विनिर्माण में,- (i) लुगदी उठाने की मुख्य प्रक्रिया हाथ से की जाती है ; और (ii) यदि विद्युत चालित सीट का जो उपस्कर के रूप में है, उपयोग किया गया है, तो सिलेंडर मोल्ड वैट 40 इंच से अधिक का नहीं है	कुछ नहीं
46.	4802 या 4804	नेशनल इंस्टीट्यूट फार विज्यूवली हैंडीकैप्ड द्वारा भेजे गए मांगपत्र के संबंध में ब्रेल प्रैस को प्रदाय किया गया मैपलिथो कागज या क्राफ्ट कागज	कुछ नहीं
47.	5004, 5005 या 5006	सभी माल, जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है (सिवाय जिनमें रेशम या रेशम अपशिष्ट भार के आधार पर 85% से कम है)	कुछ नहीं
48.	5106 या 5107	धूमित या कंकतकृत ऊन का सूत, जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है	कुछ नहीं
49.	5205 या 5206	सूती सूत (सिलाई धागे से भिन्न), जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है	कुछ नहीं
50.	5306 या 5308	सभी माल, जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है	कुछ नहीं
51.	57	निम्नलिखित माल, अर्थात् :-- (क) हाथ से बनी ऐसी कालीनें चाहे बुनाई से पूर्व और बुनाई के पश्चात् संक्रियाओं के दौरान बेहतर परिसज्जित करने के लिए चाहे किसी मशीन का उपयोग किया गया हो या नहीं ; (ख) कालीनें और टेक्सटाइल की अन्य बिछायतें, नारियल रेश (कॉयर) या जूट, ग्रंथित, ब्युतित, मूर्धित या फलकित चाहे निर्मित हैं या नहीं जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया मशीन की सहायता से नहीं की जाती है ;	कुछ नहीं

		(ग) कालीनें और टेक्सटाइल की अन्य बिछायतें, ग्रंथित, ब्युतित, मूर्धित या फलकित चाहे निर्मित हैं या नहीं जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है ; (घ) अन्य कालीन और नारियल रेशे (कॉयर) या जूट, टेक्सटाइल की अन्य फर्श की बिछायतें चाहे निर्मित हैं या नहीं	
52.	5804	सभी माल, जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत या भाप की सहायता से नहीं की जाती है	कुछ नहीं
53.	5808	सभी माल जिनके संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की गई है	कुछ नहीं
54.	5810	सभी माल, जिसका विनिर्माण विद्युत से प्रचालित ऊर्ध्वाधर प्ररूपी स्वचालित शटल कशीदाकारी मशीनों की सहायता के बिना किया गया है	कुछ नहीं
55.	5907	टेक्सटाइल फैब्रिक जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में साधारणतया कोई प्रक्रिया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती है (टेक्सटाइल फ्लाक से ऐसी विनिर्मितियों से, जिनमें टेक्सटाइल फ्लाक है भागतः या पूर्णतः आच्छादित फैब्रिक के सिवाय)	कुछ नहीं
56.	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज	कुछ नहीं
57.	64	निम्नलिखित माल, अर्थात् :-- (क) जूतादि-चप्पल (बिना ऊपर के तल्ले जो पैर के पंजे पर पट्टे से संलग्न है किन्तु ऐडी में लगा हुआ नहीं है,) जिसे व्यवसायिक रूप में हवाई चप्पल के रूप में जाना जाता है, जो चमड़े से भिन्न सामग्री की है ; या (ख) चमड़े से भिन्न सामग्री के हवाई चप्पल के भाग	कुछ नहीं
58.	68	माल, जिसमें लोहित पंक, प्रेस पंक या स्फोटन भट्टी धातुमल का या इन सामग्रियों में से एक या अधिक का भार के आधार पर 25% से अधिक का उपयोग किया गया है	कुछ नहीं
59.	69	दग्ध मृत्तिका की टाइलें, जो भारतीय मानक विनिर्देश सं० 3367-1975 के अनुरूप हों	कुछ नहीं
60.	7106	रजत की पट्टियां, तारें, चादरें, प्लेटें या पर्णों	कुछ नहीं
61.	7204 21 90	अतृप्त वेल्लित स्टेनलैस इस्पात पट्टियों या पट्टे के विनिर्माण से उद्भूत अपशिष्ट और स्क्रेप	कुछ नहीं
62.	7219 या 7220	पट्टियां या पट्टे जब उन पर अतृप्त वेल्लन से भिन्न कोई अन्य प्रक्रिया की गई हो	कुछ नहीं
63.	7222	बर्तनों के विनिर्माण में उत्पादन के कारखाने के अन्दर प्रयुक्त वृत्त	कुछ नहीं
64.	7308	कार्य स्थल पर विरचित सभी माल, जो ऐसे स्थल पर संनिर्माण कार्य में उपयोग के लिए हों	कुछ नहीं

65.	7319	सिलाई की सुईयां	कुछ नहीं
66.	7404	अपशिष्ट और स्क्रेप जिसका अपरिष्कृत या अनगढ़ ताबें की चादरों या वृत्तों और हस्त शिल्प के विनिर्माण के लिए उत्पादन कारखाने के अन्दर उपयोग किया गया हो	कुछ नहीं
67.	7408	शुद्ध तांबे और तांबा अयस्क के ताम्बे के तार, जिसकी अधिकतम अनुप्रस्थ काट वाली विमा 0.315 मिलीमीटर से अधिक नहीं है और जिसका नकली जरी के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है	कुछ नहीं
68.	7602	अनगढ़ एल्युमिनियम प्लेटों और चादरों के विनिर्माण के लिए उत्पादन कारखानों के भीतर उपयोग किया गया अपशिष्ट और स्क्रेप	कुछ नहीं
69.	8401	नाभिकीय ईंधन	कुछ नहीं
70.	8424 90 00	यांत्रिक सांघित्रों के पुर्जों की ऐसी किस्में जो कृषि या उद्यान कृषि के प्रयोग में आती हैं	कुछ नहीं
71.	8442 50 20	मुद्रण प्रयोजनों के लिए उसके उत्पादन कारखाने के भीतर प्रयुक्त लेथियोग्राफ प्लेटें	कुछ नहीं
72.	8502	शुल्क संदत्त इंजन और जनित्र से संस्थापन के स्थल पर समंजित डीजल जनित्र सैट	कुछ नहीं
73.	9001	अंतराक्ष लेंस	8 प्रतिशत
74.	9101 या 9102	ब्रेल घड़ियां	कुछ नहीं

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के क्रम संख्यांक 9,10,11,12,13,15,16 और 29 के प्रयोजनों के लिए 'ब्रांड नाम' से ऐसा ब्रांड नाम, भले ही वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् ऐसा नाम या चिह्न जैसे कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या सूचीबद्ध शब्द या कोई लेख अभिप्रेत है जो उक्त उत्पाद या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच उस व्यक्ति की पहचान के बारे में किसी उपदर्शन सहित या उसके बिना व्यापार के दौरान कोई संबंध उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या उपदर्शित किया जा सके, किसी उत्पाद के संबंध में प्रयोग किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 28 फरवरी, 2005 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 4/3/2004-सीएक्स.1 (भाग 5).]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2005

No. 3/2005-Central Excise

G.S.R. 95(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) as amended by the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005), (hereinafter referred to as the Central Excise Tariff Act), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise specified thereon under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act (hereinafter referred to as the First Schedule), as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0402 91 10 or 0402 99 20	Concentrated (condensed) milk, whether sweetened or not (other than put up in unit containers and ordinarily intended for sale)	Nil
2.	13	All goods, in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power	Nil
3.	16	All goods (other than put up in unit containers and bearing a brand name)	Nil
4.	1701	The following goods, namely:- (a) Sugar, in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power (b) Sugar (other than Khandsari sugar),- (i) Required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) (ii) Other	Nil Rs.17 per quintal Rs.34 per quintal
5.	1901 90 90	All goods, which are not put up in unit containers (other than food preparations containing malt or malt extract or cocoa powder in any proportion)	Nil
6.	1902	The following goods, namely:- (a) Seviyan (Vermicelli) (b) all goods, other than put up in unit containers	Nil
7.	1904	All goods which are not put up in unit containers	Nil
8.	1905	Biscuits, in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power	Nil

9.	20	All goods (other than put up in unit containers and bearing a brand name)	Nil
10.	2103 or 2104	All goods (other than put up in unit containers and bearing a brand name)	Nil
11.	2106 10 00, 2106 90 70, 2106 90 80, 2106 90 91 or 2106 90 99	The following goods, namely:- (a) Prasad or Prasadam (b) all goods not bearing a brand name	Nil
12.	2106 90 40 or 2106 90 60	All goods not bearing a brand name (excluding preparations for lemonades or other beverages intended for use in the manufacture of aerated waters)	Nil
13.	2201 10 10, 2201 90 90, 2202 10 90, 2202 90 30 or 2202 90 90	All goods not bearing a brand name	Nil
14.	2207 20 00	All spirits (other than denatured ethyl alcohol of any strength)	Nil
15.	2401	Un-manufactured tobacco or tobacco refuse, other than bearing a brand name	Nil
16.	2403 91 00 or 2403 99 90	All goods not bearing a brand name (other than Pan Masala containing tobacco)	Nil
17.	2515 12 20 or 2515 12 90	Marble in slabs or tiles (other than marble in slabs or tiles, in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power and where the electromotive force used exceeds ten horse power)	Nil
18.	2804 10 00	Hydrogen, consumed within factory of production	Nil
19.	2804 30 00	Nitrogen,- (i) for use in the manufacture of heavy water; (ii) in liquid form, for use in processing and storage of semen for artificial insemination of cattle; or (iii) consumed within factory of production	Nil
20.	2804 40 90	Oxygen, for use in the manufacture of heavy water	Nil
21.	2805 19 00	Potassium metal for use in a heavy water plant	Nil
22.	2811 23 00 or 2811 29 50	Sulphur dioxide and sulphur trioxide, consumed in the manufacture of sulphuric acid, within factory of production	Nil
23.	2814	Ammonia (anhydrous or in aqueous solution), for use in the manufacture of heavy water	Nil
24.	28	Nuclear fuel	Nil
25.	2847 00 00	Medicinal grade hydrogen peroxide	Nil
26.	2851 00 10	Distilled or conductivity water and water of similar purity used within factory of production	Nil
27.	2851 00 20	Liquid air (whether or not any fraction has been removed), used within the factory of production	Nil
28.	30	Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or pharmacopoeia	Nil
29.	30	Medicaments (including veterinary medicaments) used in bio-chemic systems and not bearing a brand name	Nil
30.	30	Chemical contraceptives	Nil
31.	30	Oral re-hydration salts	Nil

32.	3307 90	Kumkum (including sticker kumkum), kajal, sindur, alta or mahavar	Nil
33.	3401	Soap, in or in relation to the manufacture of which no process has been carried on with the aid of power or of steam	Nil
34.	3401 19 42	Laundry soaps produced by a factory owned by the Khadi and Village Industries Commission or any Organization approved by the said commission for the purpose of manufacture of such soaps	Nil
35.	3402 90 20	Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil	Nil
36.	3805	Turpentine oil, in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power	Nil
37.	3806	Rosin, in or in relation to manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power	Nil
38.	4005	The following goods, namely:- (a) Plates, sheets or strip, whether or not combined with any textile material, in relation to the manufacture of which no Cenvat credit of the duty paid on inputs used has been availed ; or (b) Used within factory of production for the manufacture of excisable goods falling within First Schedule	Nil
39.	4008 11 10	Plates, sheets or strips of micro-cellular rubber but not of latex foam sponge, used in the manufacture of soles, heels or soles and heels combined, for footwear	Nil
40.	4401, 4402, 4403 or 4404	All goods	Nil
41.	4408	Veneer sheets and sheets for Plywood (whether or not sliced) and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger jointed, of a thickness not exceeding 6mm: (i) in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power; or (ii) used within factory of production for the manufacture of goods falling under headings 4419, 4420 or 4421	Nil
42.	4409	Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, whether or not planed, sanded or finger jointed: (i) in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power; or (ii) used within factory of production for the manufacture of goods falling under headings 4419, 4420 or 4421	Nil
43.	4707	Recovered (waste and scrap) paper or paper board, arising from writing or printing paper, in the course of printing of educational textbooks	Nil
44.	4802	Writing or printing paper for printing of educational textbooks	Nil
45.	4802	Paper or paperboard, in the manufacture of which,- (i) the principal process of lifting the pulp s done by hand; and (ii) if power driven sheet forming equipment is used, the Cylinder Mould Vat does not exceed 40 inches	Nil
46.	4802 or 4804	Maplitho paper or kraft paper supplied to a Braille press against an indent placed by the National Institute for Visually Handicapped, Dehradun	Nil
47.	5004, 5005 or 5006	All goods, in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power, (except the goods containing less than 85% by weight of silk or silk waste)	8%
48.	5106 or 5107	Yarn of carded wool or combed wool, in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power	Nil
49.	5205 or 5206	Cotton yarn (other than sewing thread), in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power	Nil

50.	5306 or 5308	All goods, in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power	Nil
51.	57	The following goods namely:- (a) Hand-made carpets, whether or not any machines have been used to achieve better finish during pre-weaving or post weaving operations; (b) Carpets and other textile floor coverings, knotted, woven, tufted, or flocked of coconut fibres (coir) or jute, whether or not made up, in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of machines; (c) Carpets and other textile floor coverings, knotted, woven, tufted, flocked, whether or not made up, in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power; (d) Other carpets and other textile floor coverings of coconut fibres (coir) or jute, whether or not made up	Nil
52.	5804	All goods, in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power or steam	Nil
53.	5808	All goods, not subjected to any process	Nil
54.	5810	All goods manufactured without the aid of vertical type automatic shuttle embroidery machines operated with power	Nil
55.	5907	Textile fabrics, in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power (other than fabrics covered partially or fully with textile flocks or with preparations containing textile flocks)	Nil
56.	63	Indian National Flag	Nil
57.	64	The following goods, namely:- (a) Footwear-chappal (sole without upper, to be attached to the foot by thongs passing over the in-step but not even round the ankle) commercially known as hawai chappal, of material other than leather; or (b) Parts of the hawai chappals, of materials other than leather	Nil
58.	68	Goods, in which more than 25% by weight of red mud, press mud or blast furnace slag or one or more of these materials, have been used	Nil
59.	69	Burnt Clay tiles conforming to IS specification No. 3367-1975	Nil
60.	7106	Strips, wires, sheets, plates and foils of silver	Nil
61.	7204 21 90	Waste and scrap arising out of manufacture of cold rolled stainless steel patties or patta	Nil
62.	7219 or 7220	Pettis or pattas when subjected to any process other than cold rolling	Nil
63.	7222	Circles used within the factory of production in the manufacture of utensils	Nil
64.	7308	All goods fabricated at site of work for use in construction work at such site	Nil
65.	7319	Sewing needles	Nil
66.	7404	Waste and scrap used within the factory of production for the manufacture of unrefined or unwrought copper, copper sheets or circles and handicrafts	Nil
67.	7408	Copper wires of refined copper and of copper alloys of which the maximum cross-sectional dimension does not exceed 0.315 mm and used for the manufacture of imitation Zari	Nil
68.	7602	Aluminium waste and scrap used within the factory of production for the manufacture of unwrought aluminium plates and sheets	Nil
69.	8401	Nuclear fuel	Nil

70.	8424 90 00	Parts of mechanical appliances of a kind used in agriculture or horticulture	Nil
71.	8442 50 20	Lithographic plates used within the factory of its production for printing purposes	Nil
72.	8502	Diesel generating sets assembled, at site of installation, from duty paid engine and generators	Nil
73.	9001	Intraocular lenses	8%
74.	9101 or 9102	Braille watches	Nil

Explanation: for the purposes of S.Nos.9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, and 29 of this notification, 'brand name' means a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to a product, for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the product and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

This notification shall come into force on the 28th day of February, 2005.

[F. No. 4/3/2004-CX. 1 (pt. V)]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2005

सं. 5/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 96(अ) — केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उक्त धारा के अधीन जारी की गई और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) के प्रारंभ की तारीख को तत्समय प्रवृत्त भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सभी अधिसूचनाओं में निम्नलिखित या, और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचनाओं में, प्रत्येक में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के, ऐसे किसी माल या माल के वर्ग से संबंधित, जहां भी वे उक्त अधिसूचना में आए हों, अध्याय या शीर्ष सं० या उपशीर्ष सं० के प्रति निर्देशों के स्थान पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) द्वारा यथासंशोधित उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के प्रति तत्स्थानी निर्देश रखे जाएंगे।

यह अधिसूचना 28 फरवरी, 2005 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 4/3/2004-सीएक्स.1 (भाग 5)]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण : इस अधिसूचना का आशय यह है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण के लिए संख्यांकन स्कीम में अंगीकृत तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाए। इन संशोधनों से विद्यमान अधिसूचनाओं में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं होंगे। अतः व्यक्ति अधिसूचना की विशिष्टियों को उपदर्शित नहीं किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2005

No. 5/2005-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 96(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following or further amendments in all the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) issued under the said section and which are for the time being in force on the date of commencement of the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005), namely:-

In the said notifications, for the references to the Chapter or heading No. or sub-heading No. of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), relating to any goods or class of goods, wherever occurring in the said notification, the corresponding references of the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the said Central Excise Tariff Act, as amended by the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005) shall be substituted.

This notification shall come into force on the 28th day of February, 2005.

[F. No. 4/3/2004-CX. I (pt. V)]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note: This notification intends to take care of the technical changes adopted in the numbering scheme for Central Excise classification through the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005). These amendments do not involve any substantive changes in the existing notifications. Hence, the particulars of the individual notification are not indicated.